



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक, 1940 (श०)

संख्या- 1027 राँची, गुरुवार,

8 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 नवम्बर, 2018

**संख्या-5/आरोप-1-66/2017-2708 (HRMS)--** श्री पारस नाथ यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-632/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चांडिल के विरुद्ध इंदिरा आवास योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोपों के आलोक में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के न्यायालय में दायर वाद G.R No. 403/02, T.R.No.09/14 में दिनांक 4 अप्रैल, 2014 को पारित न्यायादेश में श्री यादव को भा०द०वि० की धारा-409, 420/34 के तहत दोषी पाते हुए धारा-409 के अन्तर्गत तीन वर्षों के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये आर्थिक दण्ड एवं धारा-420 के अन्तर्गत तीन वर्षों के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. अतः श्री यादव को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची रहेगा। जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०-3838 दिनांक 22 मार्च, 2017 में निहित निदेशों के अनुरूप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

4. निलंबन अवधि में श्री यादव को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के अन्तर्गत मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name ( G.P.F. No. )	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	PARASH NATH YADAV ( BHR/BAS/2823 )	श्री पारस नाथ यादव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-632/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चांडिल को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।	06/11/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अशोक कुमार खेतान,**

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

-----